

इसी तरह के टावर खड़े करने के लिये । इस ठेके में केवल सिविल इंजीनियरिंग सम्बन्धी काम और टावर खड़े करने का काम किया जा रहा है । टावर डाक और तार विभाग सप्लाई कर रहा है ।

(घ) यह सूचना रेलों के पास उपलब्ध नहीं है ।

(ङ) कम्पनियों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार मैसर्स एस० ए० ए० एस० इंजीनियरिंग कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड के निदेशकों के नाम इस प्रकार हैं :—

- (i) श्री एस० राय चौधरी
- (ii) श्री पी० के० साहा
- (iii) श्री ए० के० सरकार

और मैसर्स एस० ए० ए० एस० टावर (प्राइवेट) लिमिटेड के निदेशकों के नाम इस प्रकार हैं :—

- (i) श्री बी० सी० गुहा
- (ii) श्री एस० राय चौधरी
- (iii) श्री ए० के० सरकार
- (iv) श्री पी० के० साहा ।

निदेशकों के कार्य-काल का रेलों को पता नहीं है ।

मुगलसराय रेलवे लोको शैंड के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

3928. श्री कम चन्द कछवाय : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुगलसराय लोको शैंड के कर्मचारियों ने मई, 1968 में हड़ताल की;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे और वे कितने दिनों तक हड़ताल पर रहे; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

रेलवे मंत्री (श्री जे० मु० पुनाचा) :

(क) मुगलसराय लोको शैंड के कुछ सेक्ण्ड फायरमैन और क्लीनरों की गैर-हाजिरी और ऊंचे ग्रेडों में स्थानापन्न काम करने से इन्कार करने के कारण गाड़ियों के सामान्य संचालन में रुकावट पड़ी ।

(ख) आंदोलन इसलिए किया गया था ताकि ऊंचे ग्रेडों में पदोन्नति/स्थायीकरण आदि सेवा सम्बन्धी अपनी शिकायतों की ओर वे रेल प्रशासन का ध्यान दिला सकें ।

यह बताना संभव नहीं है कि आंदोलन कितनी अवधि तक चला क्योंकि बहुत से कर्मचारियों ने बीमार होने की सूचना दी तथा छुट्टी आदि के लिए अर्जी भेजी ।

(ग) जिन मांगों पर नियमों के अन्तर्गत विचार किया जा सकता था, उन पर कार्रवाई की गई है ।

दिल्ली और नई दिल्ली स्टेशनों पर गाड़ियों का वेर से आना

3929. श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 24 घण्टों में दिल्ली और नई दिल्ली स्टेशन पर कितनी यात्री गाड़ियां आती हैं और उक्त अवधि में इन स्टेशनों से कितनी यात्री गाड़ियां छूटती हैं;

(ख) क्या यह सच है कि 17 जून, 1968 को दिल्ली और नई दिल्ली स्टेशन पर पहुंचने वाली अधिकांश यात्री गाड़ियां देर से आई थीं; और

(ग) यदि हां, तो कितनी गाड़ियां अपने पहुंच समय के पश्चात् पहुंची थीं और वे कितना-कितना समय देर से आई थीं ।

रेलवे मंत्री (श्री जे० मु० पुनाचा) :

(क) प्रत्येक ओर से नई दिल्ली/दिल्ली स्टेशनों पर क्रमशः 52 और 76 गाड़ियां आती हैं और यहां से छूटती हैं ।

(ख) और (ग). नीचे यह बताया गया है कि 17 जून, 1968 को दिल्ली/नई दिल्ली स्टेशनों पर लेट आने वाली गाड़ियों की संख्या क्या थी और वे कितनी लेट थीं :—

स्टेशन	पहुँचने वाली कुल गाड़ियों की संख्या	ठीक समय पर 15 मिनट तक पहुँचने वाली गाड़ियों की संख्या	15 मिनट और 30 मिनट से कम पहुँचने वाली गाड़ियों की संख्या	15 मिनट से अधिक और 30 मिनट से कम पहुँचने वाली गाड़ियों की संख्या	30 मिनट से अधिक और एक घण्टा से कम लेट पहुँचने वाली गाड़ियों की संख्या	1 घण्टा से अधिक लेट पहुँचने वाली गाड़ियों की संख्या
दिल्ली	76	45	9	11	11	
नई दिल्ली	52	35	5	5	7	

#### SUPPORT PRICE OF COTTON

3930. SHRI DEORAO PATIL : Will the Minister of COMMERCE be pleased to state :

(a) whether there has been a sharp rise in the prices of cotton from the month of May, 1968 in comparison to the prices prevailing during the months of March-April, 1968;

(b) whether even now the prices are well above not only the support price for the current season but also the ceiling prices for the year 1966-67; and

(c) if so, whether Government have accepted the request of cotton growers for raising the support price of cotton for the next year ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI) : (a) Yes, Sir, a rising tendency has been noticed in the prices of some varieties of cotton since May, 1968. This tendency is, however, due to the normal seasonal factors.

(b) Yes, Sir.

(c) The matter is under consideration.

#### PRICE POLICY FOR KAPAS FOR 1968-69

3931. SHRI DEORAO PATIL : Will the Minister of COMMERCE be pleased to state :

(a) whether Government have considered the recommendations of the Agricultural Prices Commission regarding the price policy for kapas for the year 1968-69;

(b) whether the Commission has recommended to fix the support prices of Kapas which is being sold in the market by the Kapas growers; and

(c) if so, the broad features thereof and Government's reaction thereto ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI) : (a) and (b). No recommendation regarding price of kapas has been made by the Agricultural Prices Commission.

(c) Does not arise.